



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक 1938 (श0)
(सं0 पटना 959) पटना, वृहस्पतिवार, 3 नवम्बर 2016

श्रम संसाधन विभाग
(श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश
15 सितम्बर 2016

सं0 5/आर0एल0-40-20/2014 श्र0सं0-09—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, वैशाली के ज्ञापक-291/स्था0 दिनांक 10.03.2016 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर रवि प्रकाश, पिता-स्व0 ओम प्रकाश सिन्हा, भूतपूर्व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, महुआ, वैशाली की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर रवि प्रकाश की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक का कार्यालय, कैमुर (भभुआ) में पदस्थापित किया जाता है।

2. रवि प्रकाश की जन्म तिथि 08.05.1993 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4. रवि प्रकाश पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतये होगा।

5. रवि प्रकाश को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7. यह नियुक्ति रवि प्रकाश द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।

8. रवि प्रकाश को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. रवि प्रकाश को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलों दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

10. रवि प्रकाश पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11462 दिनांक 24.08.2016 की कंडिका 5 (ख) एवं (ख) में उल्लेखित निदेश यथा (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में परीक्षा अवधि में टंकण अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,
गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 959-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>